



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 21] नई दिल्ली, जून 7—जून 13, 2009, शनिवार/ज्येष्ठ 17—ज्येष्ठ 23, 1931  
No. 21] NEW DELHI, JUNE 7—JUNE 13, 2009, SATURDAY/JYAISTHA 17—JYAISTHA 23, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पुश्तक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 8 जून, 2009

सा.का.नि. 90.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2007 उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय के कृषि और सहकारिता विभाग के अधीन राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र में समूह 'ग' के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र समूह 'ग' भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आवेदन.—ये नियम इन नियमों की उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वह होगा, जो उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट होगा।

4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट होंगी।

**5. निरर्हता.—**वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीकार्य विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**6. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**7. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

**अनुसूची**

| पद का नाम                | पदों की संख्या  | वर्गीकरण   | वेतनमान                                   | क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है |
|--------------------------|---|--|---|--------------------------------|
| (1)                      | (2)   | (3)  | (4)                                       | (5)                            |
| 1. आशुलिपिक<br>श्रेणी II | 2* (2009)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | 9300-34800 रुपए<br>श्रेणी वेतन 4200 रुपये | लागू नहीं होता                 |

|   |                          |  |   |                               |
|---|--------------------------|--|---|-------------------------------|
| क्या केन्द्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के तहत लागू सेवा के जुड़े वर्षों का लाभ मिलेगा | सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा | सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं | क्या सीधी भर्ती हेतु आयु एवं शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नति पाने वाले के मामले में लागू होगी | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|--------------------------|--|---|-------------------------------|

| (6)            | (7)  | (8)  | (9)            | (10)    |
|----------------|--|--|----------------|---------|
| लागू नहीं होता | 18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में 40 वर्ष तक के और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के मामले में 45 वर्ष की आयु तक के सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय है।<br><b>टिप्पण-1</b> आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से | <b>आवश्यक :</b><br>(i) मैट्रिकुलेशन या समतुल्य<br>(ii) आशुलिपि लेखन (अंग्रेजी या हिन्दी) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति<br><b>टिप्पण 1 :</b><br>अन्यथा सुअर्हताएं उम्मीदवारों के मामले में केन्द्र सरकार के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय हैं।<br><b>टिप्पण 2 :</b><br>अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित उम्मीदवारों के मामले में केन्द्र सरकार के विवेक पर अनुभव | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

(7)

आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि यह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

**टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(8)

से सम्बन्धित अर्हताएं शिथिलनीय हैं बशर्ते कि चयन की किसी भी दशा में केन्द्र सरकार का यह विचार हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हों।

भर्ती की पद्धति; भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नत अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक सविदा सहित) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(12)

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक सविदा सहित) केन्द्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्तशासी संगठनों या अर्द्ध सरकारी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे अधिकारी जो :

(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर आशुलिपि काडर में सदृश पद धारण किया हो या

(ii) ऐसे आशुलिपिक काडर जिन्होंने 5200-20,200 रुपये श्रेणीवेतन 2400 रु. के वेतन बैंड या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष की सेवा की है।

**टिप्पणी :** प्रतिनियुक्ति की अवधि अल्पकालिक सविदा सहित जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

| (13)  | (14)           |
|---|----------------|
| समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति तथा पुष्टिकरण के लिए) में सम्मिलित होंगे :- | लागू नहीं होता |
| (1) संयुक्त सचिव (बीज)  | —अध्यक्ष       |
| (2) निदेशक, (बीज)   | —सदस्य         |
| (3) निदेशक, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र                                | —सदस्य         |
| (4) कृषि एवं सहकारिता विभाग के अन्य प्रभाग से अधिकारी                                   | —सदस्य         |
| (5) अवर सचिव (बीज)  | —सदस्य         |

| (1)                        | (2)  | (3)  | (4)                                       | (5)            |
|----------------------------|--|--|---|----------------|
| 2. सहायक (प्रशासन या लेखा) | 1* (2009)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | 9300-34800 रुपए<br>श्रेणी वेतन 4200 रुपये | लागू नहीं होता |

| (6)            | (7)   | (8)   | (9)            | (10)    |
|----------------|---|---|----------------|---------|
| लागू नहीं होता | 18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में 40 वर्ष तक के और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के मामले में 45 वर्ष की आयु तक के सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय है।<br>टिप्पण-1 आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी (न कि यह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों | किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य।<br>टिप्पण 1 : अन्यथा सुअर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में केन्द्र सरकार के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय हैं।<br>टिप्पण 2 : अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित उम्मीदवारों के मामले में केन्द्र सरकार के विवेक पर अनुभव से सम्बन्धित अर्हताएं शिथिलनीय हैं बशर्ते कि चयन की किसी भी दशा में केन्द्र सरकार का यह विचार हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हों। | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

(7)

के लिए विहित की गई है।  
टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(11)

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक सविदा सहित) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(12)

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक सविदा सहित) केन्द्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्तशासी संगठनों या अर्द्ध सरकारी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के ऐसे अधिकारी जो :

(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर आशुलिपि काडर में सदृश पद धारण किया हो; या

(ii) ऐसे आशुलिपिक काडर जिन्होंने 5200-20,200 रुपये के श्रेणी के वेतन के साथ 2400 रु. के वेतन बैंड में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष की सेवा की है।

(ख) अर्हताएं :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य; और

(ii) सरकारी कार्यालय या किसी सार्वजनिक निकाय या किसी विख्यात वाणिज्यिक संगठन में किसी पर्यवेक्षी क्षमता में प्रशासन लेखा और स्थापना कार्य का 3 वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति तथा पुष्टिकरण के लिए) में सम्मिलित होंगे :-

- |  |          |
|--|----------|
| (1) संयुक्त सचिव (बीज)                                   | -अध्यक्ष |
| (2) निदेशक, (बीज)  | -सदस्य   |
| (3) निदेशक, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र | -सदस्य   |
| (4) कृषि एवं सहकारिता विभाग के अन्य प्रभाग से अधिकारी    | -सदस्य   |
| (5) अवर सचिव (बीज)                                       | -सदस्य   |

(14)

लागू नहीं होता

2060 GI/09-2

| (1)                        | (2)  | (3)   | (4)                                       | (5)            |
|----------------------------|--|---|---|----------------|
| 3. केयर टेकर सह-स्टोर कीपर | 1* (2009)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है   | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय  | 5200-20200 रुपए<br>श्रेणी वेतन 2400 रुपये | लागू नहीं होता |
| (6)                        | (7)  | (8)   | (9)                                       | (10)           |
| लागू नहीं होता             | 18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में 40 वर्ष तक के और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के मामले में 45 वर्ष की आयु तक के सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय है।<br>टिप्पण-1 आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी (न कि यह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणीपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)<br>टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है। | <b>आवश्यक :</b><br>1. मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय इंटरमीडिएट या समतुल्य।<br>2. केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा अन्य सरकार के अंतर्गत लेखों के रख-रखाव और भंडारणों के रख-रखाव में 3 वर्ष का अनुभव।<br>टिप्पण 1 : अन्यथा सुअर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में केन्द्र सरकार के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय हैं।<br>टिप्पण 2 : अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित उम्मीदवारों के मामले में केन्द्र सरकार के विवेक पर अनुभव से सम्बन्धित अर्हताएं शिथिलनीय हैं बशर्ते कि चयन की किसी भी दशा में केन्द्र सरकार का यह विचार हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हों। | लागू नहीं होता                            | दो वर्ष        |
| (11)                       | (12)   | (13)  | (14)                                      |                |
| सीधी भर्ती                 | लागू नहीं होता   | समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति तथा पुष्टिकरण के लिए) में सम्मिलित होंगे :-   | लागू नहीं होता                            |                |

(13)

|                     |  | (1) निदेशक (बीज)  | —अध्यक्ष                                  |                |
|---------------------|--|---|---|----------------|
|                     |  | (2) अवर सचिव (बीज)  | —सदस्य                                    |                |
|                     |  | (3) प्रशासनिक अधिकारी,<br>राष्ट्रीय बीज अनुसंधान<br>एवं प्रशिक्षण केन्द्र | —सदस्य                                    |                |
|                     |  | (4) कृषि एवं सहकारिता विभाग<br>के अन्य प्रभाग से<br>अधिकारी               | —सदस्य                                    |                |
| (1)                 | (2)  | (3)   | (4)                                       | (5)            |
| 4. पुस्तकालयाध्यक्ष | 1 * (एक) (2009)<br>*कार्यभार के आधार<br>पर परिवर्तन किया<br>जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा,<br>समूह 'ग' अराजपत्रित,<br>अनुसूचिवीय              | 5200-20200 रुपए<br>श्रेणी वेतन 2400 रुपये | लागू नहीं होता |

| (6)            | (7)   | (8)  | (9)            | (10)    |
|----------------|---|--|----------------|---------|
| लागू नहीं होता | 18 से 27 वर्ष के बीच<br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-<br>समय पर जारी किए गए<br>अनुदेशों या आदेशों के<br>अनुसार सामान्य वर्ग के<br>उम्मीदवारों के मामले में<br>40 वर्ष तक के और अनु-<br>सूचित जाति या अनुसूचित<br>जनजाति के मामले में 45 वर्ष<br>की आयु तक के सरकारी<br>सेवकों के लिए शिथिलनीय है।<br>टिप्पण-1 आयु सीमा अव-<br>धारित करने के लिए निर्णायक<br>तारीख भारत में अभ्यर्थियों से<br>आवेदन प्राप्त करने के लिए<br>नियत की गई अन्तिम तारीख<br>होगी (न कि यह अंतिम जो<br>असम, मेघालय, अरुणाचल<br>प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,<br>नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू<br>एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख<br>खंड, हिमाचल प्रदेश के<br>लाहौल और स्पीति जिले<br>तथा चम्बा जिले के पांगी<br>उपखंड अंडमान और निकोबार<br>द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों<br>के लिए विहित की गई है)। | आवश्यक :<br>(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय<br>से स्नातक ;<br>(ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान<br>से पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-<br>पत्र या समतुल्य ।<br>टिप्पण 1 : अन्यथा सुअर्हता<br>प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में<br>केन्द्र सरकार के विवेक पर<br>अर्हताएं शिथिलनीय हैं ;<br>टिप्पण 2 : अनुसूचित जाति या<br>अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित<br>उम्मीदवारों के मामले में केन्द्र<br>सरकार के विवेक पर अनुभव से<br>सम्बन्धित अर्हताएं शिथिलनीय हैं<br>बशर्ते कि चयन की किसी भी दशा<br>में केन्द्र सरकार का यह विचार हो<br>कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन<br>समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त<br>संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों<br>को भरने के लिए उपलब्ध न हों । | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

(7)

**टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

| (11)       | (12)           | (13)  | (14)           |
|------------|----------------|---|----------------|
| सीधी भर्ती | लागू नहीं होता | समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति तथा पुष्टिकरण के लिए) में सम्मिलित होंगे :—<br>(1) निदेशक (बीज) —अध्यक्ष<br>(2) अवर सचिव (बीज) —सदस्य<br>(3) प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र —सदस्य<br>(4) कृषि एवं सहकारिता विभाग के अन्य प्रभाग से अधिकारी —सदस्य | लागू नहीं होता |

| (1)                 | (2)  | (3)  | (4)                                    | (5)            |
|---------------------|--|--|--|----------------|
| 5. अवर श्रेणी लिपिक | 1* (2009)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय | 5200-20200 रुपए श्रेणी वेतन 1900 रुपये | लागू नहीं होता |

| (6)            | (7)   | (8)  | (9)            | (10)    |
|----------------|---|--|----------------|---------|
| लागू नहीं होता | 18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में 40 वर्ष तक के और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के मामले में 45 वर्ष की आयु तक के सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय है।<br>टिप्पण-1 आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से | <b>आवश्यक :</b><br>(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन;<br>(ii) अंग्रेजी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति।<br>टिप्पण 1 : अन्यथा सुअर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में केन्द्र सरकार के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय हैं।<br>टिप्पण 2 : अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित उम्मीदवारों के मामले में केन्द्र सरकार के विवेक पर अनुभव से | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

(7)

(8)

आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी (न कि यह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अध्यायियों के लिए विहित की गई है)।

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सम्बन्धित अर्हताएं शिथिलनीय हैं बशर्ते कि चयन की किसी भी दशा में केन्द्र सरकार का यह विचार हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हों।

(11)

(12)

(13)

(14)

सीधी भर्ती

लागू नहीं होता

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति तथा पुष्टिकरण के लिए) में सम्मिलित होंगे :-

- (1) निदेशक, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र। —अध्यक्ष
- (2) मुख्य बीज विश्लेषक, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र —सदस्य
- (3) प्रशासनिक/लेखा अधिकारी राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र —सदस्य
- (4) कृषि एवं सहकारिता विभाग के अन्य प्रभाग से अधिकारी —सदस्य

लागू नहीं होता

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6. प्रयोगशाला परिचर

1\*(एक) (2009)  
\*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है

साधारण केन्द्रीय सेवा,  
समूह 'ग' अराजपत्रित,  
अननुसचिवीय

5200-20200 रुपए  
श्रेणी वेतन 1900 रुपये

लागू नहीं होता

2060 GA/09-3

| (6)            | (7)   | (8)  | (9)            | (10)    |
|----------------|---|--|----------------|---------|
| लागू नहीं होता | 18 से 27 वर्ष के बीच ।<br>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के मामले में 40 वर्ष तक के और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के मामले में 45 वर्ष की आयु तक के सरकारी सेवकों के लिए शिथिलनीय है।<br><b>टिप्पण 1 :</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी (न कि यह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंदमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)<br><b>टिप्पण 2 :</b> रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है। | <b>आवश्यक :</b><br>(i) विषय के रूप में भौतिक एवं रसायन के साथ 10 + 2<br>(ii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों या स्वायत्तशासी संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या बहुराष्ट्रीय/प्रतिष्ठित निजी बीज कम्पनियों में प्रयोग-शाला कार्य का एक वर्ष का अनुभव ।<br><b>टिप्पण 1 :</b> अन्यथा सुअर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के मामले में केन्द्र सरकार के विवेक पर अर्हताएं शिथिलनीय हैं ।<br><b>टिप्पण 2 :</b> अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित उम्मीदवारों के मामले में केन्द्र सरकार के विवेक पर अनुभव से सम्बन्धित अर्हताएं शिथिलनीय हैं बशर्ते कि चयन की किसी भी दशा में केन्द्र सरकार का यह विचार हो कि अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए उपलब्ध न हों । | लागू नहीं होता | दो वर्ष |

| (11)       | (12)           | (13)   | (14)           |
|------------|----------------|--|----------------|
| सीधी भर्ती | लागू नहीं होता | <b>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति तथा पुष्टिकरण के लिए) में सम्मिलित होंगे :-</b><br>(1) निदेशक (बीज) —अध्यक्ष<br>(2) निदेशक, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र —सदस्य | लागू नहीं होता |

(13)

- |     |   |        |
|-----|---|--------|
| (3) | प्रशासनिक अधिकारी/लेखा<br>अधिकारी, राष्ट्रीय बीज<br>अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र        | —सदस्य |
| (4) | कृषि एवं सहकारिता विभाग<br>के बीज प्रभाग से बाहर भारत<br>सरकार से एक राजपत्रित<br>अधिकारी | —सदस्य |

[फा. सं. 20011/5/2008-एसडी-11]

डी. प्रवीण, अवर सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE****(Department of Agriculture and Cooperation)**

New Delhi, the 8th June, 2009

**G.S.R. 90.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Seeds Research and Training Centre (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2007 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' posts under the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation in the National Seed Research and Training Centre, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Agriculture, the National Seed Research & Training Centre Group 'C' Post Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Application.**—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule annexed to these rules.

**3. Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

**4. Method of recruitment, age-limit and other qualifications.**—The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

**5. Disqualification.**—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**6. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**7. Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other Special Categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

| Name of post             | No. of posts  | Classification   | Scale of Pay                           | Whether selection post or non-selection post | Whether benefit of added years of service is admissible under rule 30 of Central Civil Service (Pension) Rules, 1972 |
|--------------------------|---|--|--|--|--|
| (1)                      | (2)   | (3)  | (4)                                    | (5)  | (6)  |
| 1. Stenographer Grade II | 2* (2009)<br>*subject to variation depending on workload. | General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial. | Rs. 9300–34,800<br>Grade Pay Rs. 4200. | Not applicable                               | Not applicable   |

| Age limit for direct recruits  | Educational and other qualifications required for direct recruits  | Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of Probation, if any |
|--|--|--|-----------------------------|
| (7)  | (8)  | (9)  | (10)                        |
| Between 18 and 27 years (relaxable for Government servants upto the age of 40 years in case of General candidates and up to 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).<br><b>Note 1 :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba Districts of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.)<br><b>Note 2 :</b> In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names. | <b>Essential :</b><br>(i) Matriculation or equivalent.<br>(ii) A speed of 100 w.p.m. in Stenography (English or Hindi).<br><b>Note 1 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified.<br><b>Note 2 :</b> The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. | Not applicable   | Two years                   |

|  |  |   |                                       |                |                |
|--|--|---|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods  | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made   |   |                                       |                |                |
| (11)   | (12)   |   |                                       |                |                |
| Deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.  | <b>Deputation (including short term contract) :</b><br>Officials under the Central Government or State Government or Union Territory or Agricultural Universities or recognized Research Institutions or Autonomous Organisations or Semi-Government Organisations or Public Sector Undertakings :<br>(a) (i) holding analogous post in the Stenographer cadre on regular basis in the parent cadre or Department; or<br>(ii) with eight years service in the stenographer cadre rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band of Rs. 5200-20,200 with Grade Pay of Rs. 2400 or equivalent.<br><b>Note :</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department or the Central Government shall ordinarily not exceeding three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years on the closing date or receipt of applications. |   |                                       |                |                |
| If a Departmental Promotion committee exists, what is its composition  | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment  |   |                                       |                |                |
| (13)   | (14)   |   |                                       |                |                |
| <b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and Confirmation Consisting of) :</b><br>1. Joint Secretary (Seeds) :<br>2. Director (Seeds)<br>3. Director, National Seeds Research and Training Centre<br>4. Officer from other Division of Department of Agriculture and Cooperation<br>5. Under Secretary (Seeds) | Not Applicable<br><br>— Chairman<br>— Member<br>— Member<br>— Member<br>— Member.  |   |                                       |                |                |
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)                                   | (5)            | (6)            |
| 2. Assistant (Administration or Accounts)  | 1* (2009)<br>*subject to variation depending up on workload.   | General Central Services, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 9300-34,800<br>Grade Pay Rs. 4200 | Not applicable | Not applicable |
| (7)  | (8)  | (9)   | (10)                                  |                |                |
| Between 18 and 27 years (relaxable for Government servants upto the  | Graduation from a recognized University or equivalent.   | Not applicable  | Two years                             |                |                |

2060 GI/09-4

| (7)  | (8)  |
|--|--|
| <p>age of 40 years in case of General candidates and up to 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time)</p> <p><b>Note 1 :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba Districts of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.)</p> <p><b>Note 2 :</b> In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.</p> | <p><b>Note 1 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p><b>Note 2 :</b> The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>   |
| (11)   | (12)   |
| <p>Deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.</p>   | <p><b>Deputation (including short term contract) :</b><br/>Officials under the Central Government or State Governments or Union Territory or Agricultural Universities or recognized Research Institutions or Autonomous Organisations or Semi-Government Organisations or Public Sector Undertakings :</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band of Rs. 5,200-20,200 with Grade Pay of Rs. 2400 or equivalent.</p> <p><b>Qualifications :</b></p> <p>(i) graduation from a recognized University or equivalent; and</p> <p>(ii) three years experience of administration accounts and establishment work in a supervisory capacity in the Government office or a public body or a commercial organization or reputed.</p> <p><b>Note :</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department or the Central Government shall ordinarily not exceeding three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p> |

| (13)   | (14)                  |
|--|-----------------------|
| <b>Group 'C' Departmental Promotion Committee<br/>(for Promotion and Confirmation consisting of) :</b> | <b>Not Applicable</b> |
| 1. Joint Secretary (Seeds)   | —Chairman             |
| 2. Director (Seeds)  | —Member               |
| 3. Director, National Seedss Research and Training Centre  | —Member               |
| 4. Officer from other Division of Department of Agriculture and Cooperation                            | —Member               |
| 5. Under Secretary (Seeds)   | —Member.              |

| (1)                            | (2)  | (3)  | (4)   | (5)            | (6)            |
|--------------------------------|--|--|---|----------------|----------------|
| 3. Caretaker-cum-store Keeper. | 1* (2009)<br>*subject to variation depending up on workload. | General Central Services, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial. | Rs. 5,200—<br>20,200<br>Grade Pay of Rs. 2,400. | Not applicable | Not applicable |

| (7)  | (8)  | (9)            | (10)      |
|--|--|----------------|-----------|
| Between 18 and 27 years (relaxable for Government servants upto the age of 40 years in case of General candidates and up to 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time)   | <b>Essential :</b><br>1. Intermediate or equivalent from recognized Board or University.<br>2. Three years' experience in maintenance of stores and keeping accounts under the Central Government or State Government or other Government.<br><b>Note 1 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified.<br><b>Note 2 :</b> The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Cenral Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. | Not applicable | Two years |
| <b>Note 1 :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradeh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti Districts and Pangri Sub-Division of Chamba Districts of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.) |  |                |           |
| <b>Note 2 :</b> In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.  |  |                |           |

| (11)   |   | (12)   |   |                |                |
|--|---|--|---|----------------|----------------|
| Direct recruitment   |   | Not Applicable   |   |                |                |
| (13)   |   | (14)   |   |                |                |
| Group 'C' Departmental Promotion Committee<br>(for Confirmation and Promotion) consisting of :   |   | Not applicable.  |   |                |                |
| 1. Director (Seeds)  | —Chairman   |  |   |                |                |
| 2. Under Secretary (Seeds)   | —Member   |  |   |                |                |
| 3. Administrative Officer, National Seed Research<br>and Training Centre   | —Member   |  |   |                |                |
| 4. Officer from other Division of Department of<br>Agriculture and Cooperation   | —Member   |  |   |                |                |
| (1)  | (2)   | (3)  | (4)   | (5)            | (6)            |
| 4. Librarian   | 1* (2009)<br>*subject to<br>variation<br>dependent<br>upon workload.  | General Central<br>Service, Group 'C',<br>Non- Gazetted,<br>Non-Ministerial. | Rs. 5,200-<br>20,200<br>Grade Pay<br>of Rs. 2,400 | Not applicable | Not applicable |
| (7)  | (8)   |  |   | (9)            | (10)           |
| Between 18 and 27 years (relaxable<br>for Government servants upto the<br>age of 40 years in case of General<br>candidates and up to 45 years in<br>case of candidates belonging to the<br>Scheduled Castes or the Scheduled<br>Tribes in accordance with the ins-<br>tructions or orders issued by the<br>Central Government from time-<br>to time).<br><b>Note 1 :</b> The crucial date for deter-<br>mining the age limit shall be the clos-<br>ing date for receipt of applications<br>from candidates in India (and not the<br>closing date prescribed for those<br>in Assam, Meghalaya, Arunachal<br>Pradesh, Mizoram, Manipur, Naga-<br>land, Tripura, Sikkim, Ladakh Divi-<br>sion of Jammu and Kashmir, Lahaul<br>and Spiti Districts and Pangi Sub-<br>Division of Chamba Districts of<br>Himachal Pradesh, Andaman and<br>Nicobar Islands and Lakshadweep.)<br><b>Note 2 :</b> In the case of recruitment<br>made through the Employment Exch-<br>ange, the crucial date for determining<br>the age limit shall be the last date upto<br>which the Employment Exchange<br>is asked to submit the names. | <b>Essential :</b><br>(i) Degree from a recognized University.<br>(ii) Certificate in Library Science from a re-<br>cognized Institute or equivalent.<br><b>Note 1 :</b> Qualifications are relaxable at the<br>discretion of the Central Government in the<br>case of candidates otherwise well qualified.<br><b>Note 2 :</b> The qualification(s) regarding experi-<br>ence is relaxable at the discretion of the Cen-<br>tral Government in the case of candidates belo-<br>nging to the Scheduled Castes or the Sched-<br>uled Tribes if at any stage of selection the<br>Central Government is of the opinion that<br>sufficient number of candidates from these<br>communities possessing the requisite experi-<br>ence are not likely to be available to fill up the<br>vacancy reserved for them. |  |   | Not applicable | Two years      |

| (11)   |   | (12)   |  |                |                |
|--|---|--|--|----------------|----------------|
| Direct recruitment   |   | Not applicable   |  |                |                |
| (13)   |   | (14)   |  |                |                |
| Group 'C' Departmental Promotion Committee<br>(for Confirmation and promotion) consisting of:  |   | Not applicable.  |  |                |                |
| 1. Director (Seeds)  | —Chairman   |  |  |                |                |
| 2. Under Secretary (Seeds)   | —Member   |  |  |                |                |
| 3. Administrative Officer, National Seed Research and Training Centre  | —Member   |  |  |                |                |
| 4. Officer from other Division of Department of Agriculture and Cooperation  | —Member   |  |  |                |                |
| (1)  | (2)   | (3)  | (4)  | (5)            | (6)            |
| 5. Lower Division Clerk  | 1* (2009)<br>*subject to variation dependent upon workload.   | General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 5,200-20,200<br>Grade Pay of Rs. 1,900 | Not applicable | Not applicable |
| (7)  | (8)   |  |  | (9)            | (10)           |
| Between 18 and 27 years (relaxable for Government servants upto the age of 40 years in case of General candidates and up to 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time-to time)<br>Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba Districts of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.)<br>Note 2 : In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names. | Essential :<br>1. Matriculation from a recognized Board.<br>2. Minimum speed of 30 w.p.m. in English or 25 w.p.m. in Hindi typewriting.<br>Desirable : Typing on computer.<br>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified.<br>Note 2 : The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. |  |  | Not applicable | Two year       |

2060 GI/09-5

| (11)   |  |  | (12)                                       |                |                |
|--|--|--|--|----------------|----------------|
| Direct recruitment   |  |  | Not applicable                             |                |                |
| (13)   |  |  | (14)                                       |                |                |
| <b>Group 'C' Departmental Promotion Committee</b><br><b>(for Confirmation and promotion ) consisting of :</b>  |  |  | Not applicable.                            |                |                |
| 1.   | Director National Seed Research and Training Centre  | —Chairman  |  |                |                |
| 2.   | Chief Seed Analyst, National Seeds Research and Training Centre  | —Member  |  |                |                |
| 3.   | Administrative/Accounts Officer, National Seed Research and Training Centre  | —Member  |  |                |                |
| 4.   | Officer from other Division of Department of Agriculture and Cooperation   | —Member  |  |                |                |
| (1)  | (2)  | (3)  | (4)  | (5)            | (6)            |
| 6. Laboratory Attendant  | 1* (2009)<br>*subject to variation dependent upon workload.  | General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial | Rs. 5,200-20,200<br>Grade Pay of Rs. 1,900 | Not applicable | Not applicable |
| (7)  | (8)  |  |  | (9)            | (10)           |
| Between 18 and 27 years (relaxable for Government servants upto the age of 40 years in case of General candidates and up to 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).<br><b>Note 1 :</b> The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub-Division of Chamba Districts of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).<br><b>Note 2 :</b> In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names. | <b>Essential :</b><br>(i) 10+2 with Physics and Chemistry as subject.<br>(ii) Experience of Laboratory work for one year in the Central Government or the State Governments or the Union Territory Administrations or the Universities or Recognised Research Institutions or Autonomous Organisations or Public Sector Undertakings or multinational/reputed private seed companies.<br><b>Note 1 :</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates otherwise well qualified.<br><b>Note 2 :</b> The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. |  |  | Not applicable | Two years      |

| (11)   | (12)            |
|--|-----------------|
| Direct recruitment   | Not applicable  |
| (13)   | (14)            |
| Group 'C' Departmental Promotion Committee<br>(for confirmation and promotion) consisting of:—                                 | Not applicable. |
| 1. Director (Seeds)  | —Chairman       |
| 2. Director, National Seed Research and<br>Training Centre   | —Member         |
| 3. Administrative Officer/Accounts Officer, National<br>Seed Research and Training Centre                                      | —Member         |
| 4. One Gazetted Officer from Government of India<br>outside the Seeds Division of Department of<br>Agriculture and Cooperation | —Member         |

[F. No. 20011/5/2008-SD-II]

D. PRAVEEN, Under Secy.